



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 ज्येष्ठ, 1939 (श०)

संख्या - 21 राँची, बुधवार

19 जून, 2019 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 319- 328
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेशों के आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग 1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ...

पूरक "अ" ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 जून, 2019

संख्या:-- कार्मिक-02/2019-1706/वि०स०-- एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्रीमती गीता कोड़ा(क्षेत्र सं०-54)जगन्नाथपुर (अ०ज०जा०)ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-190(3)(ख) एवं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-316 (1)एवं (2)में वर्णित प्रावधानों के अधीन दिनांक-31/ 05/19 के अप० से सभा की सदस्यता का त्याग कर दिया है जिसे उक्त तिथि से उक्त स्थान रिक्त हो गया है।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

अधिसूचना

7 जून, 2019

संख्या:- कार्मिक- 02/2019- 1708 /वि०स० --एतद द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि श्री चन्द्रप्रकाश चौधरी (क्षेत्र सं०-23) रामगढ़ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद-190 (3) (ख) एवं झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम-316 (1) एवं (2) में वर्णित प्रावधानों के अधीन दिनांक-03/06/19 के अप० से सभा की सदस्यता का त्याग कर दिया है जिसे उक्त तिथि के प्रभाव से स्वीकार कर लिया गया है एवं उक्त तिथि से उक्त स्थान रिक्त हो गया है ।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

महेन्द्र प्रसाद,

सचिव,

झारखण्ड विधान सभा, राँची ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

शुद्धि पत्र

10 जून, 2019

संख्या-4/नि०सं०-12-33/2017का.-4524--सुश्री उषा मिंज, झा०प्र०से०, सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इचाक, हजारीबाग की सेवा सम्पुष्टि से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2175 (HRMS), दिनांक 23.05.2019 की कंडिका-1 में अंकित गृह जिला- 'राँची' के स्थान पर 'गुमला' पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे ।
3. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

शुद्धि पत्र

10 जून, 2019

संख्या-4/नि०सं०-12-44/2016 का.-4525--जितेन्द्र कुमार पाण्डेय, झा०प्र०से०, सम्प्रति प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनोहरपुर, प0 सिंहभूम की सेवा सम्पुष्टि से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 2226 (HRMS), दिनांक 24.05.2019 की कंडिका-1 में अंकित 'पंचम 'सीमित' बैच' के स्थान पर 'पंचम बैच' पढ़ा जाय।

2. उक्त अधिसूचना के शेष अंश यथावत् रहेंगे ।
3. उक्त अधिसूचना इस हद तक संशोधित समझी जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
10 मई, 2019 ई०।

संख्या-13/ए०-109/2017-2434--श्री आशीष बत्रा, भा०पु०से०, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक- 03-06-2019 से 14-06-2019 तक कुल-12 (बारह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिनांक- 02-06-2019 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने तथा उक्त अवधि में निजी खर्च पर विदेश (सिंगापुर एवं थाईलैंड) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्री बत्रा, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना
13 मई, 2019 ई०।

संख्या-13/पी2-103/2019- 2476 /सी०, महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची (पुलिस महानिदेशक कोटि) के पद पर उत्पन्न रिक्ति के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा को दृष्टिपथ रखते हुए दिनांक-30.04.2019 को आहूत सिविल सर्विसेज बोर्ड की बैठक की अनुशंसा तथा भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक- 434/01/ES-1/JKD-HP/2019, दिनांक-13.05.2019 के आलोक में **श्री एम० विष्णुवर्धन राव, भा०पु०से० (1987),** विशेष कार्य पदाधिकारी, पुलिस आधुनिकीकरण, कैम्प नई दिल्ली को पुलिस महानिदेशक (अपुनरीक्षित वेतनमान- 75,500-80,000; पुनरीक्षित वेतनमान-पे मैट्रिक्स का लेवल-16) की कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक महानिदेशक-सह-महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान की तिथि से देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

17 मई, 2019 ई०।

संख्या-13/एल०-101/2019- 2561--श्री अखिलेश कुमार, झा, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची को यू०के० में प्रस्तावित MCTP, Phase-IV कोर्स में भाग लेने के उपरान्त दिनांक-01.07.2019 से 04.07.2019 तक 04 (चार) दिनों के Ex-India Leave की स्वीकृति तथा दिनांक-29.06.2019 एवं 30.06.2019 (शनिवार एवं रविवार) को Ex-India Leave के Prefix के रूप में उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

22 मई, 2019 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-107/2019- 2629--श्री साकेत कुमार सिंह, भा०पु०से०, पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०), राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-24.05.2019 से 01.06.2019 तक कुल-09 (नौ) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। दिनांक-23.05.2019 के अपराहन से मुख्यालय छोड़ने तथा उक्त अवधि में स्वयं के खर्च पर विदेश (मलेशिया एवं इंडोनेशिया) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्री सिंह, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

28 मई, 2019 ई०।

संख्या-14/ए०-09/2016-2714--श्री पवन कुमार, तत्कालीन अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बुण्डू को विभागीय अधिसूचना संख्या-127, दिनांक-09.01.2017 के द्वारा निलंबित किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है ।

2. श्री कुमार के निलंबन अवधि के संबंध में विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर निर्णय लिया जाएगा ।

3. आदेश में मा० मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधिसूचना

28 मई, 2019 ई०।

संख्या--13/या०-4003/2006-2726/सी०--माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाद WP (C) No.-310/1996-प्रकाश सिंह एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक-22.09.2006 को महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन एवं न्यूनतम कार्यकाल के संबंध में पारित आदेश तथा पुनः इस क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक-03.07.2018 को पारित आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-13.03.2019 को यह आदेश पारित किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन हेतु मेरिट के आधार पर ऐसे पदाधिकारियों को इम्पैनल्ड किया जाना चाहिए जिनकी सेवानिवृत्ति के पूर्व न्यूनतम 06 माह की सेवा शेष है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेशों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के चयन के संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा निर्गत निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया को अंगीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 मई, 2019 ई०।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2783 / श्री राजेन्द्र ठाकुर, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, खूँटी को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2784 / श्री प्रमोद नारायण सिन्हा, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, गुमला को प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2785 / श्री दीपक कुमार मालवीय, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, देवघर को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, दुमका के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2786 / श्री केदार राम, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, लातेहार को प्रोन्नति के फलस्वरूप अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, पलामू के पद पर पदस्थापित है ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2787/ श्री आशीष रंजन कुमार, प्रोबेशन पदाधिकारी, प्रशिक्षण हेतु जिला प्रोबेशन कार्यालय, धनबाद में कारा निरीक्षणालय द्वारा प्रतिनियुक्त को अगले आदेश तक प्रधान प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2788/ श्री अनूप मिंज, प्रोबेशन पदाधिकारी, सिमडेगा अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, गुमला के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2789/ श्री अजितेश कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, दुमका अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्राबेशन कार्यालय, देवघर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2790/ श्री मनोज बैठा, प्रोबेशन पदाधिकारी, पलामू अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, लातेहार के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या-11/स्था० राज०-34/2017-2791/ श्री रंजीत कुमार सिंह, प्रोबेशन पदाधिकारी, जिला प्रोबेशन कार्यालय, चास (बोकारो) अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रोबेशन पदाधिकारी, अनुमंडल प्रोबेशन कार्यालय, तेनुघाट (बेरमो), बोकारो के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुबोध कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 मई, 2019 ई०।

संख्या-07/हो० गा० (स्था०)-03/2017-2873 / झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के निरीक्षक के कोटि से जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्यक्ष झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची की अध्यक्षता में दिनांक-15.05.2019 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में श्री बिनय कुमार, निरीक्षक को झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के मूल कोटि के पद (जिला समादेष्टा) पर पुनरीक्षित वेतन लेवल-09 (अपुनरीक्षित वेतनमान् PB-II- 9300-34800, ग्रेड वेतन रु० 5400/-) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए जिला समादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी, राँची के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विष्णुकांत राय,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

10 जून, 2019 ई०।

संख्या-06/निदे०अभि०-13/09/2015-3031--निदेशक अभियोजन, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड का पद रिक्त रहने के कारण अभियोजन निदेशालय के कार्यों के सुचारु एवं त्वरित निष्पादन हेतु श्री राज कुमार सिंह, उप निदेशक, अभियोजन निदेशालय, झारखण्ड, राँची नियमित निदेशक अभियोजन की नियुक्ति होने तक अपने कार्यों के अतिरिक्त निदेशक अभियोजन, झारखण्ड, राँची के प्रभार में रहेंगे ।

2. श्री सिंह द्वारा नीतिगत विषयों को छोड़कर निदेशक अभियोजन के अन्य सभी कर्तव्यों का निर्वहन किया जायेगा ।

3. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना**12 जून, 2019**

संख्या-3/नि0सं0-09-05/2016 का. 4614--श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-774/03), अपर उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को दिनांक 15.01.2016 से 16.02.2016 तक No work No pay के आधार पर असाधारण अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 60 एवं 236 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना**12 जून, 2019**

संख्या-1/विविध-839/2016 का. 4626 -- श्रीमती नेहा अरोड़ा, भा.प्र.से. (झा:2012), सम्प्रति मातृत्व अवकाश पर को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 19.01.2019 से 10.06.2019 तक कुल 143 (एक सौ तैंतालीस) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गयी है, को विस्तारित करते हुए दिनांक 11.06.2019 से 17.07.2019 तक कुल 37 दिनों के लिए अतिरिक्त मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं USHA KUMARI पिता GANESH PRASAD SAHA शपथ पत्र सं० 1946, दिनांक 27 मई, 2019 के अनुसार USHA GUPTA के नाम से जानी जाऊंगी ।

USHA KUMARI एवं USHA GUPTA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT -- BLOCK-B, PURANA BANDH ROAD,
RAM NAGAR COLONY, CHAS,
P.O.+P.S.- CHAS,
DIST.- BOKARO,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAGINI LAL पत्नी ANAND KUMAR LAL शपथ पत्र सं० 518, दिनांक 8 मई, 2019 के अनुसार RAGINI SINHA के नाम से जानी जाऊंगी ।

RAGINI LAL एवं RAGINI SINHA दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT -- HOUSE NO. -209, ROAD NO.-2,
BASANT VIHAR HARMU,
P.S.- ARGORA,
DIST.- RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PAGLU SINGH Urf DHANANJAY SINGH पिता LATE MOHAN SINGH शपथ पत्र सं० 113, दिनांक 18 मई, 2018 के अनुसार DHANANJAY SINGH के नाम से जाना जाऊंगा ।

PAGLU SINGH Urf DHANANJAY SINGH एवं DHANANJAY SINGH दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF VILLAGE-- BAIDMARA,
NEAR RAILWAY LINE,
BOKARO STEEL CITY,
DIST- BOKARO (JHARKHAND)